

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 527] नई दिल्ली, बुध्द्वसतिवार, दिसम्बर 13, 1979/अग्रहायण 22, 1901
No. 527] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 13, 1979/AGRAHAYANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1979

क्र० प्र० 795(अ).—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 56 (ख) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि किसी रेलवे स्टेशन तक केवल माल को से जाने के लिए आशयित रेल गाड़ियों द्वारा बुक किये गये माल का, ऐसे स्टेशन से अविलम्ब हटाया जाना आवश्यक है और उग उपधारा के परन्तुक में विनिश्चित बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रेल स्टेशनों को 15-12-79 से और 6 महीने की अवधि के लिए “अधिसूचित स्टेशन” घोषित करती है अर्थात्:—

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. हाबरा | 2. बारसाना |
| 3. सियालबदह | 4. उल्हाङ्गारा |
| 5. चितपुर धाढ़ | 6. नाग बाजार |

7. रथदौला	8. साहेब बाजार
9. काशीपुर (क पो क)	10. बेलघरिया
11. धगर पाड़ा	12. मोदपुर
13. टीटागढ़	14. बारकपुर
15. दूधछापुर	16. ब्यास नगर
17. काकोनाडा	18. नैहाटी जं०
19. काँवरपाड़ा	20. कल्याणी
21. काशीघाट	22. बालीगंज
23. तत्तोषपुर गुड्स	24. घाकड़ा
25. नंसी	26. बजबज
27. जाटकपुर	28. सोनारपुर
29. खरडीपुर जं०	30. वेउला
31. बासुलझागा	32. डायमंड हार्बर
33. नं० 6 ब्रिज साइडिंग, लिलुघा	34. बेलूड जीटी रोड साइडिंग
35. बाली	36. कोन्तगर
37. रिसड़ा	38. श्रीरामपुर
39. सेवड़ाफुली जं०	40. भद्रेधरघाट
41. जन्दन नगर	42. हुगली
43. रामकिस्तोपुर	44. शिवपुर चर
45. हाथड़ा पंजाब लाइन गुड्स डिपो	

[सं० टी० सी० 1/1680/75/2]

के० बालचन्द्रन, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 1979

S.O. 795(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 56(B) of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government, being satisfied that it is necessary that the goods booked by trains intended solely for the carriage of goods to any railway station should be removed without delay from such railway station and having regard to the factors specified in that sub-section, hereby declares the following railway stations as "notified stations" for a further period of six months with effect from 15th December, 1979, namely :—

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Habra | 2. Baraset |
| 3. Sealdah | 4. Ultadanga |
| 5. Chitpur-Ghat | 6. Baghbazar |
| 7. Ruthola | 8. Sahab Bazar |
| 9. Cossipore (CPC) | 10. Belgharia |

11. Agarpara	12. Sodpur
13. Titagarh	14. Barrackpore
15. Ichhapur	16. Shyamnagar
17. Kankinara	18. Naihati Jn.
19. Kanchrapara	20. Kalyani
21. Ballygunge	22. Kalighat
23. Santoshpur Goods	24. Akra
25. Nangi	26. Budge Budge
27. Jadavpur	28. Sonarpur
29. Baruipur Jn.	30. Deula
31. Basuldanga	32. Diamond Harbour
33. No. 6 Bridge Siding/Liluah	34. Belur G.T. Road Siding
35. Bally	36. Konnagar
37. Rishra	38. Serampur
39. Seoraphuli Jn.	40. Bhadreswar Ghat
41. Chandan Nagar	42. Hooghly
43. Ramkistopur	44. Shibpur Char
45. Howrah Punjab Line Goods Depot.	

[No. TCI/1680/75/2]

K. BALACHANDRAN, Secy.

